




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 339]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2001/आषाढ़ 8, 1923

No. 339]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2001/ASADHA 8, 1923

पोत परिषहन-मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2001

सा. का. नि. 495 (अ).—केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

चेन्नाई पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) (संशोधन) विनियम 2001

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्ष :

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) (संशोधन) विनियम, 2001 के नाम से कहलाए जाएंगे।

2. ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) विनियम के विनियम 11 के उप-विनियम (1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“11(1) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा किसी पद या पद श्रेणी पर नियुक्त हरेक व्यक्ति उसके ड्यूटी पर आने की तारीख से लगातार तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा।”

पाद टिप्पणी :—

मुख्य विनियम :

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) विनियम, 1977, जो दिनांक 03-02-1997 के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, केन्द्र सरकार की पत्र सं. पो ई एम-38/75 द्वारा अनुमोदित है का प्रकाशन दिनांक 16-03-1977 को तमिल नाडु राजपत्र में दिनांक 16-03-1977 को एस.आर.ओ. सी. 4/77 तथा अनुवर्ती संशोधन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचनाएँ

- (i) दिनांक 1-4-1980 की सं. जी एस आर 559
- (ii) दिनांक 03-02-1987 की सं. जी एस आर 77(ई)
- (iii) दिनांक 09-01-1996 की सं. जी एस आर 16(ई)
- (iv) दिनांक 04-08-2000 की सं. जी एस आर 650(ई)
- (v) दिनांक 28-11-2000 की सं. जी एस आर 899(ई)
- (vi) दिनांक 11-01-2001 की सं. जी एस आर 19(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2001

G. S. R. 495 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Chennai Port Trust Employees' (Appointment, Promotion, etc.) Amendment Regulation, 2001 made by the Board of Trustees of the Port of Chennai Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

CHENNAI PORT TRUST

MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES' (APPOINTMENT, PROMOTION, ETC.)

(AMENDMENT) REGULATIONS, 2001

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Madras Port Trust Board hereby makes the following amendment Regulations :—

1. Short Title :—

These Regulations shall be called Madras Port Trust Employees' (Appointment, Promotion etc.) (Amendment) Regulations, 2001.

2. These Regulations shall come into force from the date of publication of the Regulations in the official Gazette.

3. In the Madras Port Trust Employees' (Appointment, Promotion, etc.) Regulations, Sub-regulation (1) of Regulation 11 shall be substituted asunder :

"11.(1) Every person appointed to a post or category of posts by direct recruitment or promotions shall, from the date of his joining duty, be on probation for a period of two years of duty within a continuous period of three years of service."

[F. No. PR-12016/23/99-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

Foot note :—

Principal regulations

The Madras Port Trust Employees' (Appointment, promotion, etc.) Regulations, 1977 approved by Central Government in Ministry of Surface Transport's letter No. PEM-38/75 dated the 3rd February, 1977 published in Tamil Nadu Government Gazette dated the 16th March, 1977 vide SROC 4/77, dated the 16th March, 1977 and subsequently amended vide Ministry of Surface Transport's Notifications

- (i) No. GSR 559 dated the 1st April, 1980.
- (ii) No. GSR 77(E) dated the 3rd February, 1987.
- (iii) No. GSR 16(E) dated the 9th January, 1996.
- (iv) No. GSR 650(E) dated the 4th August, 2000.
- (v) No. GSR 899(E) dated the 28th November, 2000.
- (vi) No. SGR 19(E) dated 11th January, 2001.